

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014 (पौष 25, 1935)

क्र. 1078-वि.स.-विधान-2014.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 15 जनवरी 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 15 जनवरी 2014

राम नरेश यादव  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

राजकुमार पांडे  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.